

### HB STOCKHOLDINGS LTD.

Regd. Office: Plot No.31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurgaon -122001 (Haryana) Ph.: 0124-4675500, Fax: 0124-4370985, E-mail: corporate@hbstockholdings.com Website: www.hbstockholdings.com, CIN No. L65929HR1985PLC033936

28th August, 2019

The Listing Department

Bombay Stock Exchange Limited, Pheroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

Symbol: 532216

The Vice President

National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai - 400 051

Symbol: HBSL

Sub: - Newspaper Publication- Notice of Board Meeting

Dear Sir / Madam,

Please find attached copy of Board Meeting Notice published in Business Standard (English & Hindi Edition) on Wednesday, 28th August, 2019. Copy of the said publication is also available on the website of the Company, www.hbstockholdings.com

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HB Stockholdings Limited

RACHIT-TANDON

(Company Secretary & Compliance Officer)

Tourdour

Encl: As above

# h, who made VW house, dies at 82

as a ruthless manager and master of intrigue who used his connections to fight his many battles.

boss

died

heir

astv

rink

ne a

as a

and

new

pro-

last

the

019

0 in

During his over half-century career he turned VW into a 13-brand empire and pillar of the German economy with now 660,000 employees.

But in the end he left it in anger shortly before the company faced its worst ever crises with the "dieselgate" scandal.

"Piech wasn't just any car boss," judged top-selling Bild daily. "With him, a piece of German economic history

dies. He was the last auto manager to build his own cars." News weekly Der Spiegel dubbed him the "Engineer of Power ... a brilliant technician and Machiavellian master".

Ferdinand Karl Piech was born in Vienna on April 17,

His father Anton ran the VW plant founded by Nazi dictator Adolf Hitler during World War II. His mother Louise was the daughter of Ferdinand Porsche, inventor of the iconic Beetle and founder of luxury brand.

## Philip Morris in talks with Altria to create \$200-bn tobacco group

Philip Morris International and Altria Group are discussing an all-stock merger. potentially reuniting two of the world's largest tobacco firms after more than a decade, in a deal aimed at domination of the fast-growing e-cigarette market.

Altria's shares initially rose more than 6 per cent, while Philip Morris fell almost 10 per cent. A merger of the two would create a company with a market value of more than \$200 billion.

Analysts and investors have long speculated that the companies would merge, given mounting pressure from declining cigarette sales and

the need to invest in other sources of revenue.

Industry-wide cigarette sales volumes tumbled 4.5 per cent on an adjusted basis in 2018, according to analysts at Cowen. In contrast, the e-cigarette market was worth about \$11 billion in 2018 and is expected to grow at more than 8 per cent annually over the next five years, said research firm Mordor Intelligence.

"The potential to reunite the firms has been often discussed, but we did not believe this would occur given the heavy regulatory burden and its weakening growth profile," said Stifel analyst Christopher Growe. REUTERS

# भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम, रेल मंत्रालय) एक नवरत्न कंपनी CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

601 - 603, 6th Floor, Navketan Building, SD Rd CIN: L63011DL19

#### **NOTICE INVITING TENDER**

Tender Ref.No.: CON/SCR/Tenders/Empanelment /l/2019

CONCOR invites sealed tenders for the following work:
Brief Description of Work: Open Tender in single bid system is invited for Empanelment of Advertising
Agencies in CONCOR-SCR for Releasing of Advertisements/Notifications in the News Papers

Estimated Value of Work	Rs.24.05 Lakhs for 2+1 years.	
Cost of Tender Document	Rs.1120/- ( including GST)through Crossed Demand Draft in favour of Container Corporation of India Ltd, payable at Hyderabad/Secunderated Rs.48,110/- by Demand Draft in favour of Container Corporation of India Ltd, payab at Hyderabad/Secunderabad	
Earnest Money		
Date of Sale of Tender	From: 28/08/2019 to 18/09/2019 between 10:00 to 18:00 hours on working days	
Last Date of Tender Submission	19/09/2019 up to 15:00hrs	
Date of Tender Opening	19/09/2019 at 15:30 hrs	

The bid document can be downloaded from the website (www.eprocure.gov.in or www.concorindia.com). However, the intending bidders should submit the document sale price of Rs. 1120<sup>1</sup>, along with tender bid. Corrigendum, if any shall be published only on the above website. For more details please contact: Of The Chief General Manager, 601-603, 6th Floor, Navketan Building, Opp. Clock Tower, SD Road, Secunderabad - 500 003. Tet 040-27404240.

#### TER HB LEASING AND FINANCE **COMPANY LIMITED**

CIN: L65910HR1982PLC034071 Regd. Off.: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122001, Harvana Email: corporate@hbleasing.com Website: www.hbleasing.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 07th September, 2019, inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June

This Notice is also available on the website of the Company, www.hbleasing.com and also on the website of the Bombay Stock Exchange (BSE Limited), www.bseindia.com.

For HB Leasing and Finance Company Limited

Date: 27.08.2019 Place: Gurugram

LAKSHAY VAID (Company Secretary) M. No.: ACS-45438

#### HB STOCKHOLDINGS LTD

CIN: L65929HR1985PLC033936

Regd. Off.: Plot No. 31, Echelon Institutional Area Sector-32, Gurugram-122001, (Haryana) Phone: 0124-4675500, Fax-0124-4370985 E-mail: corporate@hbstockholdings.com Website: www.hbstockholdings.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 07th September, 2019, inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the first quarter ended 30th June

This Notice is also available on the website of the Company, www.hbstockholdings.com and also on the website of the Bombay Stock Exchange (BSE Limited), www.bseindia.com and National Stock Exchange (NSE Limited), www.nseindia.com

For HB Stockholdings Ltd

**RACHIT TANDON** (Company Secretary) M. No.: ACS-30169

#### **FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

#### RELEVANT PARTICULARS

Transstroy Tirupati-Tiruthani-Chennai Tollways Private Limited

Authority under which corporate debtor is Registrar of Companies, Hyderabad incorporated / registered

4 Corporate identity number of the corporate U45203TG2010PTC068672 5 Address of the registered office and principal Registered Office: Plot No. 201, 202A & 202B,

#### FORM G **INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST** (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution

Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 **RELEVANT PARTICULARS** 

Date: 27.08.2019

Place: Gurugram

#### एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड CIN: L65929HR1985PLC033936

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 31, एशलॉन इस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुप्राम-122001, (हरियाणा) कोन: 10124-467550, केक्स: 124-437085 ई-मेल: corporate@bhstockholdings.com वेबसाइट: www.hbstockholdings.com

सूचना

भारतीय प्रतिमृति एवं विनियम बोर्ड (सूवीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्वारा पृथित किया जाता है कि कप्पनी के निरेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 07 सितम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम (प्रथक्त एवं समेकित) विवारित तथा अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वंबसाइट www.hbstockholdings.com और बॉम्चे स्टॉक एक्सचेज (वीएसई लिमिटेड) की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशान्त स्टॉक एक्सचेज (एनएसई लिमिटेड) की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड हस्ता./-

तिथि : 27.08.2019 स्थान : गुरुग्राम M

रचित टंडन (कम्पनी सचिव) M. No.: ACS-30169

#### एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910HR1982PLC034071 पंजी. कार्या. : प्लॉट सं. 31, एशलॉन इस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुआम-122001, हरियाणा ईमेल: corporate@hbleasing.com वेबसाइट: www.hbleasing.com सुखना

भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्वर्गत एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 कंगाई विनियम 29 के साथ पवित विनियम 47 के अनुसरण में में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के क्या जिल्ला के कि कम्पनी के क्या जाता है कि कम्पनी के क्या जिल्ला के जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2019 को सामाप्त प्रथम तिमाही हेतु कम्पनी के अनअंकेकिसत वित्तीय परिणाम (पृथककृत एवं समेकित)। विवारित तथा अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com पर तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज (बीएसई लिमिटेड) की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड हस्ता./-

लक्ष्य वैद तिथि : 27.08.2019 (कम्पनी सचिव) स्थान : गुरुग्राम M. No.: ACS-45438

# Carrier

### केरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लि.

सीआईएनः U74999HR1992FLC036104 पंजीकृत कार्यालयः नरसिंहपुर, खेरकी डौला पोस्ट, गुडगाँव 122 001, हरियाणा फोनः +91-124-4825500; फैक्सः +91-124-2372230 वेबसाइटः <u>www.carrierindia.com</u>, ईमेलः <u>secretarial@carrier.utc.com</u>

### 27वीं आम वार्षिक बैठक, रिमोट ई-वोटिंग की सूचना तथा पुस्तकें बंद होने की तिथि

1. एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि केरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 27वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को प्रात: 11:00 बजे फोरचुन सेलेक्ट ग्लोबल, ग्लोबल आर्केड, मेहरोली—गुडगांव रोंड, सिकन्दरपुर, सेक्टर 26, गुरुग्राम—122002 हरियाणा में होंगी जिसमें दिनांक 13 अगस्त, 2019 की सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित किया गया।

एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची, प्रक्सी फार्म, एवं 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट अनुमत माध्यम से सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण 27 अगस्त, 2019 को पूर्ण कर लिया गया है। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.carrier.com/building-solutions/en/in/investor/ पर और सीडीएसएल की

वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर उपलब्ध है।

3. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 तथा स्वियन विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मुह्या कराने के लिए सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ले रहा है। कट-ऑफ तिथि 13 सितम्बर, 2019 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइण्ड रूप में शेयरों को धारण करने वाले सदस्य, एजीएम की सुवना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से, सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, एजीएम स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

. एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है;

 रिमोट ई—वोटिंग 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय समयानुसार प्रातः 9 बजे शुरूआत होगी तथा 19 सितम्बर, 2019 को भारतीय समयानुसार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी;

iii. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा एजीएम में मतदान करने हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए कट—ऑफ की तिथि 13 सितम्बर, 2019 है;

iv. यदि काई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी के शेयरों को धारण करता है और कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट—आफ 13 सितम्बर, 2019 अंशधारी हो helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर निवेदन कर ई—वोटिंग के लिए अपना लॉग इन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है;

V. सदस्य जो भाग लेने और मत करने के अधिकृत हैं वे प्रॉक्सी या प्रॉक्सियां नियुक्त कर पोल पर सदस्य के बताए भाग तथा मत करने का अधिकार रखते हैं, तथा प्रॉक्सी का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी नियुक्ति दस्तावेज (Instrument) बैठक शुरू होने से पहले कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा हो जानी चाहिए। सदस्य / प्राक्सियां से निवेदन है कि बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत रूप से भरी हुई उपस्थिति पर्ची जो कि वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकर आएं;

Vi. सदस्य कृपया नोट करें. क) मतदान के लिए कथित तिथि और समय के उपरान्त सी डी एस एल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मोड्यूल असक्षम कर दिया जाएगा तथा मतदान के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, ख) सदस्यों को मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम पर उपलब्ध कराई जायेगी, ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान किया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः अपना वोट डालने का हक नहीं होगा, घ) वे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रिजिस्टर में अथवा कट—ऑफ तिथि 13 सितम्बर, 2019 को डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लम्भभोगी स्वामियों के रिजिस्टर में दर्ज हो, केवल वे ही रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाम उठाने के पात्र होंगे। डो एक बार मतदान करने के पश्चात् सदस्य को इसे बदलने अथवा पुनः मत करने की अनुमित नहीं दी जायेगी;

vii. िकसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोग नियमावली और सदस्य निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफक्यू) को देख सकते हैं या ई-मेंल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखें या संपर्क करें श्री राकेश डालवी, उप प्रबंधक 16वां तल, िकरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई -400001 हेल्पडेरक: 18002005533 पर।

 सदस्यों का रिजस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 14 सितम्बर 2019 से शुक्रवार 20 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सिहत) बन्द रहेंगी।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते केरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लि. हस्ता/-

ART
HOUSING FINANCE
Own your drawns

### आर्ट हाउसिंग फाइर्नेस (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्ववर्ती आर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लि.) पंजीकृत कार्यालय का पताः 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुमाष प्लेस, शाखा कार्यालय : 49, उद्योग विहार, फेस 4, गुडगांव, हरियाणा — 122015

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्निनर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर् (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्जदारों से ऋण की देय राशि की वसूली हेतु, नीचे वर्णित है, जहाँ है, जैसी है, जो भी है, आधार पर बिकी हेतु मुहर बंद लिफाफों में निविदा प्रस्ताव आमंत्रित है।

कर्जदार(ओं) /	मांग सूचना	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरिं
जमानती(ओं)	तारीख और राशि		मूल्य लिए
ऋण लोन सं. डीईएल000057 श्री लखन पाल (कर्जदार) श्रीमती सीमा रानी (सह कर्जदार) संमसन कन्सेल्टेंसी प्रा. लि. (सह कर्जदार)	(रूपय चीतीस लाख चौतीस हजार चार सौ चौवन मात्र) दिनांक	नगर निगम द्वारा अनुमोदित कालोनी जवाहर नगर पलवल कैंप, पलवल—121102 द्वारा, स्थित प्लाट नं. 1432/88 पर दुकान माप 46 वर्ग गज (पूर्व व पश्चिमी मुजा 20'10'' और उत्तरी व दक्षिणी भुजा 20' हैं) पलैट निम्नवत् परिबद्ध हैं.— पूर्व: राम लाल की संपत्ति पश्चिम: लज्जावती पत्नी श्री टीकाराम की संपत्ति उत्तर: अन्य संपत्ति दक्षिण: नगर निगम रोड	13,00 त्रहेट (रूपये लेखे

1. ईएमडी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्ना में मुहरबंद प्रस्ताच को कंचनी के कार्यालय जिसका पता 45 गुड़गाव 122015 है, में जमा करने की अंतिम तिथि 28.09.2019 है। निविदाएं, जो भरी नहीं हो गी प्राप्त होगी, उन्हें अविधिमान्य माना जायेगा और तदनुसार अस्वीकृत हो जायेंगी। ईएमडी पर कोई ब्या

संपत्ति की बिकी के लिए प्रस्ताव उपरोक्त पते पर कार्यालय में दिनांक 30.09.2019 समय पूर्वा. निविदाएं प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेंगी।

3. अचल सम्पत्ति का दिनांक 05.09.209 और 19.09.2019 को पूर्वा. 11.00 से अप. 6.00 के बीच 64

 सूचना में बकाया राशि पर ऋण करार के अनुसार यथालागू भावी ब्याज प्रमारित की जायेगी और इस ब्यय, लागत आदि देय व भुगतेय होंगे।

 कर्जदार और जमानती को बिकी के समय स्वयं हाजिर रहने के लिए सूचित किया जाता है और वे बि अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक केता / खरीदार को ला सकते है।

6. नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए सरफंसी अधि कर्जदार(ऑ)/जमानती(ओ) को 30 दिनी बिकी सूचना दी जाती है, अन्यथा अचल सम्पत्ति की नील यदि कोई हो, की ब्याज और लागतों सहित वसूली की जायेगी। यदि कर्जदार बिकी की तिथि से हाउसिंग फाइनेंन्स (इंडिया) लिमिटेड को पूर्ण भुगतान कर देता है तो नीलामी रोक दी जायेगी।

नीलामी बिकी के निबंधन व शर्ते निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिए गए हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त शाखा कार्रे

अचल सम्पत्ति उच्चतम निविदाकार को बिकी की जायेगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी को यदि आवश्यक
परस्पर बोली कराने का अधिकार होगा।

9. कंपनी संपत्ति पर ऐसी किसी देयता के लिए जिम्मेद्वार नहीं होगी जो कंपनी की जानकारी में नहीं है। अधिक विवरण के लिए उपरोक्त कार्यालय पते पर प्राधिकृत अधिकारी को संपर्क करें।

स्थानः पलवल तिथि : 28.08.2019

आर्ट हाउसिंग फाइ